

ईरान के व्यापारिक सहयोगियों पर लगेगा शुल्क

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, भारत, चीन और यूएई पर पड़ सकता है असर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जनवरी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ 'व्यापार करने वाले' किसी भी देश को अमेरिका के साथ अपने व्यापार पर 25 फीसद शुल्क का भुगतान करना होगा। इस कदम का भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे ईरान के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, निर्यातकों के संगठन 'फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस' (फियो) ने कहा कि इसका भारत पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने सोमवार को ट्विथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि तत्काल प्रभाव से इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25 फीसद का शुल्क देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब



'सीमाएं लांघ रहा' है और इसी वजह से उन्हें और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को 'कठोर विकल्पों' पर विचार करना पड़ रहा है। ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में चीन, तुर्किये, भारत, यूएई, पाकिस्तान और आर्मेनिया शामिल हैं। ट्रंप की इस घोषणा का असर भारत पर पड़ सकता है जो हाल के वर्षों में ईरान के पांच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 50 फीसद शुल्क लगा दिया है, जो दुनिया के किसी भी देश पर लगाए गए

ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब 'सीमाएं लांघ रहा' है और इसी वजह से उन्हें और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को 'कठोर विकल्पों' पर विचार करना पड़ रहा है।

सबसे अधिक शुल्क में से एक है। इसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 फीसद शुल्क भी शामिल है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, ईरान को भारत के प्रमुख निर्यातों में चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, कृत्रिम फाइबर, विद्युत मशीनरी और कृत्रिम आभूषण शामिल हैं जबकि ईरान से भारत के प्रमुख आयातों में सूखे मेवे, अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन और कांच के बर्तन शामिल हैं। आनलाइन डेटा विजुअलाइजेशन और वितरण मंच 'आब्जर्वेटरी आफ इकोनॉमिक

काम्प्लेक्सिटी' (ओईसी) के अनुसार, 2023 में भारत से ईरान को निर्यात कुल 1.19 अरब डालर था जबकि भारत में आयात कुल 1.02 अरब डालर का हुआ था। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराना संबंध है। समकालीन संबंध इन ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों की मजबूती पर आधारित हैं और उच्चस्तरीय आदान-प्रदान, वाणिज्यिक एवं संपर्क सहयोग, सांस्कृतिक और मजबूत जन-संबंधों के माध्यम से लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत-ईरान संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू चाबहार बंदरगाह का संयुक्त विकास है। ऊर्जा से भरपूर ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान संपर्क एवं व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विकसित कर रहे हैं। मई 2015 में भारत और ईरान ने 'चाबहार बंदरगाह के विकास की योजना में भारत की भागीदारी' विषय पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

ईरान : सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब तक 646 लोग मारे गए

दुर्गई, 13 जनवरी (एपी)।

ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई के तहत इंटरनेट सेवाएं स्थगित किए जाने के बाद, लोग पहली बार मंगलवार को विदेशों में कुछ फोन कर पाए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, प्रदर्शन में कम से कम 646 लोग मारे गए हैं। तेहरान में कई लोग समाचार एजेंसी को फोन कर वहां के एक पत्रकार से बात करने में सफल रहे, हालांकि बाद में दुर्गई स्थित समाचार एजेंसी उन नंबरों पर फोन नहीं कर पाया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एसएमएस संदेश भेजने की सुविधा ठप है और ईरान में इंटरनेट उपयोगकर्ता सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर अनुमोदित वेबसाइटों से जुड़ सकते हैं, लेकिन विदेशी वेबसाइटों से नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने साढ़े चार दिन तक दुनिया से कटे रहने के दौरान ईरान की राजधानी की सड़कों पर जीवन की एक संक्षिप्त झलक पेश की। हेलमेट और कवच पहने दंगा-रोधी पुलिस अधिकारी लाठी, डाल, शाट्यन और आंसू गैस के गोले लिए हुए थे। वे प्रमुख चौराहों पर निगरानी रख रहे थे।

11वीं स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं कराने की संभावना तलाश रही सरकार

नई दिल्ली, 13 जनवरी (ब्यूरो)।

केंद्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षाओं में सुधार और कोचिंग केंद्रों पर निर्भरता कम करने के लिए गठित एक समिति कक्षा 11 में महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने या कक्षा की परीक्षाओं को उनके (प्रवेश परीक्षाओं के) कठिनाई के स्तर के अनुरूप बनाने की संभावना तलाश रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समिति यह अध्ययन करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है कि प्रवेश परीक्षाओं का कठिनाई का स्तर कक्षा 12 के पाठ्यक्रम की कठिनाई के स्तर के अनुरूप है या नहीं, जबकि वर्तमान में अधिकतर प्रवेश परीक्षाएं कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। पिछले वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों से जुड़े मुद्दों, 'डमी स्कूलों' के पनपने तथा प्रवेश परीक्षाओं की प्रभावशीलता और निष्पक्षता की समीक्षा के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया था।

उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता वाली यह समिति उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग केंद्रों पर छात्रों की निर्भरता कम करने के उपाय सुझाएगी। सूत्रों के अनुसार समिति की

उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता वाली यह समिति उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग केंद्रों पर छात्रों की निर्भरता कम करने के उपाय सुझाएगी।

हालिया बैठक में हितधारकों ने सुझाव दिया कि कुछ प्रवेश परीक्षाएं कक्षा 11 के स्तर पर कराई जा सकती हैं या कम से कम कक्षा 11 की परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाओं के समान बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) प्रारूप में आयोजित की जाएं। इस संभावना का अध्ययन किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि समिति मौजूदा स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्याप्त उन कमियों की भी समीक्षा कर रही है, जिनके कारण विद्यार्थी केंद्रों पर निर्भर हो जाते हैं। कोचिंग के घंटे सीमित करना, स्कूल पाठ्यक्रम को इस तरह पुनः डिजाइन करना कि वह स्कूल के बाद होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के अनुरूप हो, और बोर्ड परीक्षा के परिणामों को अधिक महत्त्व देना भी समिति को प्राप्त हुए सुझावों में शामिल हैं। समिति के अन्य कार्यक्षेत्रों में छात्रों और माता-पिता को जागरूक करना भी है।

न्यायालय: श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद ओरिजिनल मेनेटेन्स (O.M) वार्ड संख्या नं० - 110/2025 तैय्य खानआवेदक	बनारस तनवीर आलम खान उर्फ तनवीर खानविपक्षी तनवीर आलम खान उर्फ तनवीर खान, पिता - जह्दीर खान, पत्नी - 22-बी0 बी0बी0 खान रोड नियर यंग मुस्लिम क्लब, मुल्ताह पाइड, 3rd Floor, गोपीया - 39, पोस्ट - रीतबला, थाना - रीतबला, जिला - कोलकाता, राज्य - पश्चिम बंगाल, पिन - 700039 एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक ने आपके विरुद्ध मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 144 बी0एम0एम0एम0 के तहत धरणा-धरणा हेतु ओरिजिनल मेनेटेन्स (O.M) वार्ड संख्या - नं० 110/2025 दायर किया है, जिसमें आपको न्यायात एवं रिजिस्टर्ड डाक द्वारा समान निति हो चुका है, इसके बावजूद आपको अभी तक इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः इस न्यायिक के प्रकाशन के माध्यम से आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 15.12.2025 को समय 11.00 बजे सुबह न्यायालय के समक्ष उपस्थित आना जबाब दायित्व करें अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एक सरकारी न्यायावै प्राप्ति कर दी जाएगी। आज दिनांक 22.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय के मुहर से अग्रसरित Next Date 20.01.2026। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद
---	--

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. Initial Public Offer of equity shares on the EMERGE platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE", "Stock Exchange") in compliance with Chapter II A of the Securities and Exchange Board of India, (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR REGULATIONS").



(Please scan this QR code to view the RHP)



AVANA ELECTROSYSTEMS LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited company under Companies Act 1956, in the name and style of 'Avana ElectroSystems Private Limited' under the Companies Act, 1956, pursuant to a Certificate of Incorporation dated July 16, 2010 issued by the Registrar of Companies, Bengaluru, Karnataka (RoC). Pursuant to a special resolution passed by our shareholders in the Extra Ordinary General Meeting held on December 09, 2024, our Company has been converted into a public limited company and the name of our Company was changed to 'Avana ElectroSystems Limited' and a fresh Certificate of Incorporation dated December 17, 2024 has been issued to our Company by the Central Processing Centre. For further details on the change in name and registered office of our Company, see "History and Certain other Corporate Matters" on page 191 of the Red Herring Prospectus.

Corporate Identity Number: U31400KA2010PLC054508
Registered Office: No: 8, KIADB, Plot No. 35, 1st Main Road, 2nd Phase, Peenya Industrial Area, Nelagadaranahalli Village, Peenya Small Industries, Bengaluru - 560058, Karnataka, India
Contact Person: Amrutha Naveen, Company Secretary and Compliance Officer, E-mail: cs@avanaelectrosystems.com; Tel: +91 80 4123 3386; Website: avanaelectrosystems.com

OUR PROMOTERS: ANANTHARAMAIAH PANISH, GURURAJ DAMBAL, S VINOD KUMAR, K N SREENATH		
PRICE BAND - ₹ 56 TO ₹ 59 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10 EACH		
INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 59,70,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF AVANA ELECTROSYSTEMS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ [-] LAKHS ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UPTO 51,76,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [-] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 7,94,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [-] LAKHS OF WHICH UPTO 3,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [-] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET OFFER OF UPTO 56,70,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [-] LAKHS (THE "NET OFFER"). THE FRESH OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.36 % AND 25.04% RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.		

CORRIGENDUM NOTICE TO INVESTORS: Corrigendum to the Red Herring Prospectus dated December 31, 2025 ("RHP")
This is with reference to the Red Herring Prospectus ("RHP") filed with the registrar of Companies, Bengaluru at Karnataka on December 31, 2025 and the statutory price band advertisement each dated January 05, 2026 and corrigendum dated January 08, 2026 published in all editions of Financial Express (a widely circulated English national daily newspaper) and all editions of Jansatta (a widely circulated Hindi national daily newspaper and all edition of Uday Kala Regional Newspaper (Kannada being the regional language of Karnataka where our Registered Office is located).

The attention of investors is drawn to the following:

Pursuant to a notice dated January 12, 2026 bearing no. 07/2026, the NSE has declared a trading holiday on January 15, 2026 on account of municipal corporation elections in Maharashtra, and accordingly, the indicative timeline with respect to the Offer as given in the RHP dated December 31, 2025 stands amended. However, the statutory requirements of T+2 and T+3 do not change, as per the definition of "working days" on page number 13 of the RHP. The revised Offer program is as below:

Event	Existing Schedule	Revised Schedule
Anchor Portion Offer Opens/Closes on	January 09, 2026	January 09, 2026
Bid/Offer Opening Date	January 12, 2026	January 12, 2026
Bid/Offer Closing Date	January 14, 2026	January 14, 2026
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	On or before January 15, 2026	On or before January 16, 2026
Initiation of Allotment / Refunds / Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI ID linked bank account (T+2)	On or before January 16, 2026	On or before January 19, 2026
Credit of Equity Shares to Demat accounts of Allottees	On or before January 16, 2026	On or before January 19, 2026
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchange	On or before January 19, 2026	On or before January 20, 2026


The above information, supersedes the information (as applicable) in the RHP the statutory price band advertisement to the extent inconsistent. The RHP, the statutory price band advertisement accordingly stands amended to the extent stated herein above and the above changes are to be read in conjunction with the RHP, the statutory price band advertisement, corrigendum, respectively.

Relevant changes shall be reflected in the Prospectus as and when filed with the RoC, SEBI and NSE. Unless otherwise specified all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such items in the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER TO THE OFFER
 Indcap Advisors Private Limited Suite 1201, 12 th Floor, Aurora Waterfront, GN 34/1, Sector 5, Salt Lake City, Kolkata - 700091, West Bengal, India Tel: +91 33 4069 8001 Email ID: smeipo@indcap.in Website: http://www.indcap.in/ Investor Grievance E-mail: investors@indcap.in Contact Person: Shradha Khanna SEBI Registration Number: INM000013031	 Integrated Registry Management Services Private Limited No 30 Ramana Residency, 4 th Cross Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560 003 Karnataka, India Contact Person: S Giridhar Email ID: smeipo@integratedindia.in Tel No: +91 80 23460815/816/817/818 SEBI Registration: INR000000054	Amrutha Naveen No: 8, KIADB, Plot No. 35, 1 st Main Road, 2 nd Phase, Peenya Industrial Area, Nelagadaranahalli Village, Peenya Small Industries, Bengaluru - 560 058, Karnataka, India Tel: +91 80 4123 3386 E-mail: cs@avanaelectrosystems.com Bidders can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer-related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM.

For Avana ElectroSystems Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anantharamaiah Panish
Managing Director
Place: Bengaluru, Karnataka
Date: January 13, 2026

DISCLAIMER: Avana ElectroSystems Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares. The Red Herring Prospectus dated December 31, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, Bengaluru and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Red Herring Prospectus is available on the website of NSE EMERGE at www.nseindia.com and is available on the website of the BRLM at www.indcap.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.




BAJAJ BEYOND

जमनालाल बजाज पुरस्कार

नामांकन आमंत्रित


४८ वें जमनालाल बजाज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार – २०२६

गाँधीवादी 'योद्धाओं' के लिए




रचनात्मक कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भर समुदाय के निर्माण हेतु महात्मा गाँधी के एक या सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा विकास में योगदान के लिए.




ग्राम विकास हेतु विज्ञान और टेक्नोलॉजी के व्यावहारिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

जमीनी स्तर की अनुकूल, क्रियाशील, अनुकरणीय और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किए गए ऐसे योगदान के लिए, जिससे ग्रामीण लोगों का आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक विकास हुआ हो.



महिला और बाल विकास एवं कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

केवल महिला के लिए.
महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, आजीविका के साधन उपलब्ध कराने, सर्वांगीण विकास, पक्षसमर्थन आदि के लिए.



विदेशों में गाँधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार


केवल विदेशी नागरिक के लिए.
शांति, अहिंसा, प्रकृति के साथ मनुष्य जीवन का सुमेल और नैतिक विवेक जैसे गाँधीवादी सिद्धांतों को भारत के बाहर के देशों में प्रचार में योगदान के लिए.

नामांकन की अंतिम तारीख


राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार: ३१ जनवरी, २०२६

ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण: www.jamnalalbajajawards.org/nomination-forms

ईमेल (नामांकन के लिए): nominations@jamnalalbajajfoundation.org



Jamnalal Bajaj Foundation
Bajaj Bhawan, Jamnalal Bajaj Marg, 226 Nariman Point, Mumbai 400 021
Phone: 022 - 69424200 / 22023626



Visit
www.jamnalalbajajfoundation.org
www.jamnalalbajajawards.org
www.bajajgroup.company
www.bajajbeyond.co.in

